



# DHAMPURE SPECIALITY SUGARS LIMITED

[WWW.DHAMPURGREEN.COM](http://WWW.DHAMPURGREEN.COM) CIN: L24112UP1992PLC014478

Regd. Office: Village Pallawala, Tehsil- Dhampur, Bijnor , Uttar Pradesh-246761

Corp. Office: 24, School Lane, Near World Trade Center , New Delhi-110001

Tel: +91-11- 23711223, 23711224 E-mail: [cs@dhampurgreen.com](mailto:cs@dhampurgreen.com)

---

Dated: 31<sup>st</sup> August, 2024

To,  
The Manager (Listing)  
Bombay Stock Exchange Limited  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai – 400 001

Scrip Code: 531923

**Sub.: - Submission of copies of Newspaper Publication regarding the 32<sup>nd</sup> Annual General Meeting to be held on Monday, September 23, 2024 at 01:30 P.M. (I.S.T) at the registered office of the company.**

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulations 30, 44 and 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of the newspaper advertisement published on August 31, 2024, informing the shareholders about the 32<sup>nd</sup> Annual General Meeting of Dhampur Speciality Sugars Limited to be held on Monday, September 23, 2024 at 01:30 P.M (I.S.T.) at the Registered Office of the Company at Village Pallawala, Tehsil-Dhampur, Bijnor, Uttar Pradesh-246761.

The advertisement has been published in the following newspapers:

1. The Financial Express (English National Daily Newspaper-All Edition)
2. The Jansatta (Hindi Daily Newspaper-Delhi Edition).

You are requested to take the aforesaid information on your record.

Thanking You,

Yours Faithfully  
For Dhampur Speciality Sugars Limited

Aneesh Jain  
Company Secretary & Compliance officer



**NEERAJ PAPER MARKETING LIMITED**  
(CIN: L74899DL1993PLC066194)  
Regd. Office: 218 - 222, Aggarwal Prestige Mall, Plot No. 2, Community Center, Along Road No. 44, Pitampura, New Delhi-110034  
Email Id: cs@neerajpaper.com. Website: www.neerajpaper.com. Tel: +91 11 47527700. Fax: +91 11 47527777

**NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION**  
NOTICE is hereby given that the 29<sup>th</sup> Annual General Meeting of Shareholders of the Company will be held on Friday, 27<sup>th</sup> September 2024 at 11.30 A.M. through Video Conferencing /Other Audio Visual Means ("VC/OAVM"). In compliance with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, further extension with General Circular No. 02/2022, dated 05th May, 2022 and General Circular No.11/2022 dated 28<sup>th</sup> December, 2022, Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022, and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/P/CIR/2023/167 dated 7th October, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2023/167 dated 7th October, 2023 companies are allowed to hold AGM through Video Conferencing, without the physical presence of members at a common venue. Hence the AGM of the company is being held through VC to transact the business set out in the Notice which has already been sent to the shareholders individually through e-mail if his/her e-mail address is registered with the Depository / Registrar & Transfer Agent. In accordance with the Circulars issued by MCA and SEBI, the requirement of dispatching of physical copies of Notice of AGM has been dispensed off. The Notice of 29<sup>th</sup> AGM is also available on the Company's website https://www.neerajpaper.com/notices, on the website of Stock Exchange www.bseindia.com and on the website of www.evotingindia.com. The dispatch of Notice of AGM through emails has been completed on 30<sup>th</sup> August 2024.

The Company is providing its member the facility to exercise their right to vote by electronic means and the business may be transacted through e-voting Services provided by Central Depository Services Limited (CDSL). E-Voting facility will be available at the link www.evotingindia.com. The e-voting period commences on 24<sup>th</sup> September 2024 at 10:00 A.M. and ends on 26<sup>th</sup> September 2024 at 5:00 P.M. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, it shall not be allowed to change subsequently. The Cut-off date for the purpose of e-voting shall be Friday, 20<sup>th</sup> September 2024. For electronic voting instructions, Shareholders may go through the instructions in the Notice of AGM of the Company.

Person who acquires shares and become member of the company after the dispatch of notices and who are eligible shareholders as on cut-off date i.e. Friday, 20<sup>th</sup> September 2024 may contact Mr. Puneet Mittal on (011-29961281) or beatairta@gmail.com to obtain the login id and password.

Remote e-voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 P.M. of 26<sup>th</sup> September, 2024. A member may participate in the general meeting even after exercising her/his right to vote through remote e-voting, but shall not be allowed to vote again in the meeting. Facility for voting will also be made available during the AGM and those present in the AGM through VC facility, who have not cast their vote through Remote e-voting shall be eligible to vote through the e-voting system at the AGM. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting.

The manner of Remote e-voting and in the AGM for Members holding shares in physical mode or in dematerialized mode and for members who have not updated their email addresses with the Company, is provided in the Notice of the AGM.

In case of any queries/grievances pertaining to e-voting, you may contact Mr. Puneet Mittal General Manager, Bestal Financial & Computer Services Pvt. Ltd. at beatairta@gmail.com Telephone Nos. 011 29961281 or contact Mr. Nitin Kumar (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542) or refer to frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com

Notice pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is also hereby given that the Register of Members & Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, September 21, 2024 to Friday, September 27, 2024 (Both days inclusive) for 29<sup>th</sup> Annual General Meeting of Company.

By Order of the Board  
FOR NEERAJ PAPER MARKETING LIMITED  
Sd/-  
Deepa Kumari  
(Company Secretary & Compliance Officer)

Date: 30.08.2024  
Place: Delhi

**AGARWAL DUPLEX BOARD MILLS LIMITED**  
(CIN: L9999DL1984PLC019052)  
Regd. Office: 217, Aggarwal Prestige Mall, Plot No. 2, Community Center, Along Road No. 44, Pitampura, New Delhi - 110034  
Website: www.agarwalduplex.net. Tel: +91 11 47527700. Fax: +91 11 47527777

**NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION**  
NOTICE is hereby given that the 40<sup>th</sup> Annual General Meeting of Shareholders of the Company will be held on Monday, 30<sup>th</sup> September 2024 at 11.30 A.M. through Video Conferencing /Other Audio Visual Means ("VC/OAVM"). In compliance with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and Circular No. 09/2023 dated 25th September, 2023 issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, further extension with General Circular No. 02/2022, dated 05th May, 2022 and General Circular No.11/2022 dated 28th December, 2022, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022, and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/P/CIR/2023/167 dated 7th October, 2023 and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2023/167 dated 7th October, 2023 companies are allowed to hold AGM through Video Conferencing, without the physical presence of members at a common venue. Hence the AGM of the company is being held through VC to transact the business set out in the Notice which has already been sent to the shareholders individually through e-mail if his/her e-mail address is registered with the Depository / Registrar & Transfer Agent. In accordance with the Circulars issued by MCA and SEBI, the requirement of dispatching of physical copies of Notice of AGM has been dispensed off. The Notice of 40<sup>th</sup> AGM is also available on the Company's website https://www.agarwalduplex.net/notices, on the website of Stock Exchange www.bseindia.com and on the website of www.evotingindia.com. The dispatch of Notice of AGM through emails has been completed on 30th August 2024.

The Company is providing its member the facility to exercise their right to vote by electronic means and the business may be transacted through e-voting Services provided by Central Depository Services Limited (CDSL). E-Voting facility will be available at the link www.evotingindia.com. The e-voting period commences on 27th September 2024 at 10:00 A.M. and ends on 29th September 2024 at 5:00 P.M. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, it shall not be allowed to change subsequently. The Cut-off date for the purpose of e-voting shall be Monday, 23rd September 2024. For electronic voting instructions, Shareholders may go through the instructions in the Notice of AGM of the Company.

Person who acquires shares and become member of the company after the dispatch of notices and who are eligible shareholders as on cut-off date i.e. Monday, 23<sup>rd</sup> September 2024 may contact Mr. Puneet Mittal on (011-29961281) or beatairta@gmail.com to obtain the login id and password.

Remote e-voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 P.M. of 29<sup>th</sup> September, 2024. A member may participate in the general meeting even after exercising her/his right to vote through remote e-voting, but shall not be allowed to vote again in the meeting. Facility for voting will also be made available during the AGM and those present in the AGM through VC facility, who have not cast their vote through Remote e-voting shall be eligible to vote through the e-voting system at the AGM. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting.

The manner of Remote e-voting and in the AGM for Members holding shares in physical mode or in dematerialized mode and for members who have not updated their email addresses with the Company, is provided in the Notice of the AGM.

In case of any queries/grievances pertaining to e-voting, you may contact Mr. Puneet Mittal General Manager, Bestal Financial & Computer Services Pvt. Ltd. at beatairta@gmail.com Telephone Nos. 011 29961281 or contact Mr. Nitin Kumar (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542) or refer to frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com

Notice pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is also hereby given that the Register of Members & Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, September 24, 2024 to Monday, September 30, 2024 (Both days inclusive) for 40<sup>th</sup> Annual General Meeting of Company.

By Order of the Board  
FOR AGARWAL DUPLEX BOARD MILLS LIMITED  
Sd/-  
(Renu Malki)  
Company Secretary

Date: 30.08.2024  
Place: Delhi

**WASSERSTOFF RJ INNOVATIONS LLP**  
LLPIN: ACD-8650  
802, Ansal Bhawan, 16, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001  
FORM NO. URC-2

Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XX (Pursuant to Section 374D) of the Companies Act, 2013 and rule 41(1) of the Companies (Authorized to Register) Rules, 2014

1. Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 368 of the Companies Act, 2013, an application is proposed to be made to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Manipal that WASSERSTOFF RJ INNOVATIONS LLP may be registered under Part I of Chapter XX of the Companies Act, 2013, as a company limited by shares.

2. The principal objects of the company are as follows:  
To carry on the business of Software designing, development, customisation, implementation, maintenance, testing and benchmarking, designing, developing and dealing in computer software and Artificial Intelligence Solutions, Natural Language Process and Deep Learning models and to import, export, sell, purchase, distribute, host (in data centers or over the web) or otherwise deal in own and third party computer software packages, programs and solutions, and to provide internet / web based applications, services and solutions, provide or take up information technology related assignments on sub-contracting basis, offering services on-site/offsite or through development centers using owned/hired or third party infrastructure and equipment, providing solutions/ Packages/services through applications services provider mode, as an internet or otherwise, to undertake IT enabled services like call Centre Management, Medical and legal transcription, data processing, Back office processing, data warehousing and database management.

3. To carry on the business of dealing and maintenance of computer hardware, equipment and devices, provide or take up processors, program designs and to buy, sell or otherwise deal in such hardware and software packages and all types of tabulating machine, accounting machines, calculators, computerized telecommunication systems and network, their components, spare parts, equipment and devices, provide or take up the business of establishing, running and managing institutions, school, and academics for imparting education in computer technology, offering equipment, solutions and services for networking and network management, data centre management and in providing consultancy services in all above mentioned areas.

4. To develop, provide, undertake, design, import, export, distribute and deal in Systems and application software for microprocessor based information systems, off shore software development projects, internet service provider, and solutions in all areas of application including those in Emerging niche segments like Internet and Intranet website applications solutions software enterprise, resource planning, e-commerce, value added products and other business applications either for its own use for sale in India or for export outside India and to design and develop such systems and applications software for or on behalf of manufacturers owners and users of computer, telecom, digital, electronic equipments in India or elsewhere in the world.

5. To carry on in India or elsewhere, the business of marketing, promoting, advertising, franchising or dealing in any of the above activities both in internal and external markets, on digital media or any other online or digital means, on its own or through any sort or nature and to appoint sub-franchisers etc., for any of the above purposes, in India or elsewhere and marketing through online marketing, digital marketing in various sites.

3. A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company may be inspected at the office at 802, Ansal Bhawan, 16, Kasturba Gandhi Marg, Connaught Place, New Delhi-110001.

4. Notice is hereby given that any person objecting to this publication may communicate their objection in writing to the Registrar at 4th Floor, IFC Tower, 6/1, Nehru Place, New Delhi - 110019 within twenty-one days from the date of publication of this notice, with a copy to the company at its registered office at 802, Ansal Bhawan, 16, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001

FOR WASSERSTOFF RJ INNOVATIONS LLP  
Sd/-  
RUCHIRANS JAIPURIA  
DESIGNATED PARTNER  
DATED: 29.08.2024 DIN: 00355291

**DHAMPURE SPECIALITY SUGARS LIMITED**  
(CIN: L24112UP1992PLC014487)  
Regd. Office: Village Pallawala, Tehsil-Dhampur, Bijnor, Uttar Pradesh-246761, Corp. Office: 24, School Lane, Near World Trade Center, New Delhi-110001  
Tel: +91-11-23711223, 23711224, E-mail: cs@dhampuregreen.com www.dhampuregreen.com

**NOTICE OF 32<sup>nd</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE**  
Notice is hereby given that the 32<sup>nd</sup> Annual General Meeting of the Members of Dhampur Speciality Sugars Limited will be held on Monday, September 23, 2024 at 01:30 P.M (IST) at The Registered Office of the Company at Village Pallawala, Tehsil-Dhampur, Bijnor, Uttar Pradesh-246761.

The Notice and Annual Report of the company for the financial year ended March 31, 2024 has been sent via electronic mode to those member who have registered their e-mail addresses in compliance with applicable provision of the companies act, 2013, the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with MCA Circulars and SEBI Circulars. The dispatch of the Notice of the AGM and Annual Report has been completed on 27/08/2024, in conformity with the regulatory requirements.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations, the Company is pleased to provide facilities for Members to exercise their right to vote on resolutions proposed in respect of the businesses to be transacted at the Meeting by electronic means i.e., through remote e-Voting system, for which Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL), as the authorized agency for providing the said facilities. The details relating to e-Voting in terms of said Act, and Rules, are as under:

- The date and time of commencement of remote e-Voting: September 20, 2024 at 09:00 A.M
- The date and time of end of remote e-Voting: September 22, 2024 at 05:00 P.M Remote e-Voting shall not be allowed beyond the end date and time mentioned above. The remote e-Voting module shall be blocked by NSDL for voting thereafter.
- The Record date/Cut-off date: September 16, 2024.
- Book Closure: September 17, 2024 to September 23, 2024 Members whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial owners maintained by the Depositories as on cut-off date shall only be entitled to avail the facility of remote e-Voting facility. Persons who are not Members as on cut-off date should treat this notice for information purposes only.
- A person, who acquires shares and becomes a member of the Company after the dispatch of the Notice and holding shares as on the cut-off date may obtain their login ID and password by sending request at cs@dhampuregreen.com or evoting@nsdl.co.in. However, if a member is already registered for e-Voting, then existing User ID and password can be used for login and casting vote.
- Member who have cast their vote through remote e-Voting may attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again.
- Members who will be present in the AGM and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-Voting shall be eligible to vote at the AGM.
- Website address of the Company where the Notice of the AGM is displayed, Company: www.dhampuregreen.com. The same can also be accessed from the websites of the respective Stock Exchange viz. BSE Limited at www.bseindia.com and on the website of NSDL at www.nsdl.com
- All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Amit Vishal, (NSDL) National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West) Mumbai MH 400013 IN or send an email to evoting@nsdl.co.in or call at toll free no. 18001020990
- Mrs. Uma Verma, Practicing Company Secretary, (Membership No. ACS 41116 and CP No. 18283) has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process and poll at AGM in a fair and transparent manner.
- The declared results of voting along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website www.dhampuregreen.com and shall be submitted to Stock Exchange where the shares of Company are listed within 2 working days of conclusion of AGM.

For Dhampur Speciality Sugars Limited  
Sd/-  
Anesh Jain  
Company Secretary

Date: 30/08/2024  
Place: New Delhi

**KIFS HOUSING FINANCE LIMITED**  
Registered Office: 6th Floor, KIFS Corporate House, Beside Hotel Planet Landmark, Near Ashok Vastha BRTS, ISKON - Ambli Road, Ambli, Ahmedabad, Gujarat - 380054 Corporate Office: C-902, Lotus Park, Graham Firth Compound, Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai - 400063, Maharashtra, India. Ph. No.: +91 22 61796400 E-mail: contact@kifshousing.com Website: www.kifshousing.com CIN: U65922GJ2015PLC085079 RBI COR: DOR-00145

**NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 (SARFAESI ACT)**  
In respect of loans availed by below mentioned borrowers/guarantors through KIFS HOUSING FINANCE LIMITED, which have become NPA with below mentioned balance outstanding on dates mentioned below. We have already issued detailed Demand Notice dated as mentioned below Under Sec. 13(2) of Securitization and Reconstruction of Financial Asset Enforcement of Security Interest Act 2002 by Registered Post / Speed Post/ Courier with acknowledgement due to you which has been returned undelivered / acknowledgement not received. We have indicated our intention of taking possession of securities owned on your behalf as per Sec. 13(4) of the Act in case of your failure to pay the amount mentioned below within 60 days in the event of your not discharging liability as set out herein above the Bank / Secured Creditor may exercise any of the right conferred vide section 13(4) of SARFAESI Act and while publishing the possession notice auction notice, electronically or otherwise, as required under the SARFAESI Act, the Bank/Secured Creditor may also publish your photograph. Details are hereunder:-

Sr. No.	Branch/ Application No./LRN	Name of Borrower / Co-Borrower / Guarantors & Date of NPA	Demand Notice Date Amount Outstanding	Detail of Secured Assets:
1	Ghaziabad / 16663 / LNHLGNH/ 012693	1. Mr. Braham Pal (Borrower) 2. Mrs. Anita Devi (Co-Borrower) 3. Mr. Manoj Kumar (Co-Borrower) NPA: May 10, 2024	Demand Notice Date August 27, 2024 O/s. Rs. 1992973/-	Property Address: Fourth Floor (without roof right) Plot No. 33 Kharsa No. 167, Radha Krishna Enclave Ghanshyam Farm House Village Dasna, Indragadhi Dasna Ghaziabad Ghaziabad UTTAR PRADESH India 201015. As per Sale Deed: East: Other Plot West: 20th wide road. North: Plot No. 33A, South: 20th wide road. As per Site: East: Other Plot West: 20th wide road, North: Other Property, South: 20th wide road

The above mentioned Borrowers/Guarantors are advised (1) To collect the original notice from the undersigned for more and complete details and (2) To pay the balance outstanding amount interest and costs etc. within 60 days from the date of notice referred to above to avoid further action under the SARFAESI Act.  
Date: 31.08.2024  
Place: UTTAR PRADESH  
Sd/-, Authorised Officer  
KIFS Housing Finance Ltd.

**ALCHEMIST CORPORATION LIMITED**  
Regd. Office: R-4, Unit 103, First Floor, Khirki Extension Main Road, Malviya Nagar, New Delhi-110017  
CIN: L74899DL1993PLC055768  
info@alchemist-corp.com / 011-49096562

**NOTICE TO THE MEMBERS WITH RESPECT TO THE 31<sup>st</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, Dear Member(s).**

We hereby inform that the 31<sup>st</sup> Annual General Meeting ("AGM") of Alchemist Corporation Limited ("the Company") will be held on Saturday, the 28<sup>th</sup> September, 2024 at 02.30 p.m. IST through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means ("OAVM"), to transact the business as set out in the notice of the AGM, in compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 ("the Act"), Rules made thereunder, General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, read with General Circular No. 09/2023 dated September 29, 2023 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023 read with SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR /2023/167 dated October 7, 2023 Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

In compliance with the aforesaid Circulars, the Notice convening the 31<sup>st</sup> AGM along with Annual Report for the Financial Year 2023-24 shall be provided through electronic mode only at the registered email id (registered with the Company/ Depositories) of the members of the company and other persons so entitled. These documents shall also be available at Company's website at www.alchemist-corp.com, website of the Stock Exchange i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and NSDL at www.evotingindia.com.

In terms of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the resolutions for consideration at the 31<sup>st</sup> AGM will be transacted through e-voting during the AGM. Accordingly, the Company has engaged NSDL to provide its services to members for exercise their vote through remote e-voting or e-voting at AGM. The instructions on the process of e-voting, including the manner in which the Members holding shares in physical form or who have not registered their e-mail address can cast their through e-voting, will be provided as part of the Notice of the 31<sup>st</sup> AGM. Members participating through VC shall be counted for reckoning the quorum under Section 103 of the Act. The proceeding of the AGM will be deemed to be conducted at the Registered Office of the Company which shall be the deemed venue of the AGM. The facility for e-voting will also be provided at the AGM and members attending the AGM who shall not cast their vote through remote e-voting will be able to vote at the AGM.

The Cut-off date has been fixed as Monday, 23<sup>rd</sup> September, 2024 for the purpose of voting entitlement for AGM and for determining the names of eligible members for the financial year ended March 31, 2024.

**MANNER OF REGISTERING/UPDATION OF EMAIL ADDRESSES:**  
Members holding shares in physical mode, who have not registered their email address and mobile numbers with the company are requested to update their email addresses and mobile numbers by submitting physical copy of Form ISR-1 to the RTA along with relevant documents at Skyline Financial Services Private Limited, D-15/3A, 1st Floor Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020 Or at their email id, admin@skinirta.com.

By Order of the Board of Directors  
For Alchemist Corporation Limited  
Sundar Singh  
Company Secretary

Place: New Delhi  
Dated: 30.08.2024

**TRITON CORP LIMITED**  
CIN: L74899DL1990PLC039989  
Email: cs@tritoncorp.in / Phone: 011-49096562

**Regd. Office: R - 4, Unit 102, First Floor, Khirki Extension Main Road, Malviya Nagar, New Delhi- 110017**

**NOTICE TO THE MEMBERS WITH RESPECT TO THE 34<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING**

Dear Member(s),

We hereby inform that the 34<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of TRITON CORP LIMITED ("the Company") will be held on Saturday, the 28<sup>th</sup> September, 2024 at 01.00 p.m. IST through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means ("OAVM"), to transact the business as set out in the notice of the AGM, in compliance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 ("the Act"), Rules made thereunder, General Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020, read with General Circular No. 09/2023 dated September 29, 2023 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD2/CIR/P/2023/120 dated July 11, 2023 read with SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR /2023/167 dated October 7, 2023 Securities and Exchange Board of India ("SEBI").

In compliance with the aforesaid Circulars, the Notice convening the 34<sup>th</sup> AGM along with Annual Report for the Financial Year 2023-24 shall be sent through electronic mode only at the registered email id (registered with the Company/ Depositories) of the members of the company and other persons so entitled. These documents shall also be available at Company's website at www.tritoncorp.in, website of the Stock Exchange i.e., BSE Limited at www.bseindia.com and NSDL at www.evotingindia.com.

Member who has Not registered their e-mail addresses with the Depositories/Company/Registrar and share Transfer Agent (RTA), so far, are requested to register/update their e-mail addresses. However, the member may temporarily register the same with the company by providing details such as Name, DP ID, Client ID, PAN, Mobile number and email address to cs@tritoncorp.in

Members can join and participate in the 34<sup>th</sup> AGM through VC/OAVM facility only. Necessary arrangements have been made by the company with National Securities Depositor Limited ("NSDL") to facilitate e-voting. The instruction of joining the 34<sup>th</sup> AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through e-voting system during the 34<sup>th</sup> AGM is provided in the Notice of the 34<sup>th</sup> AGM. Members participating through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the 34<sup>th</sup> AGM and the Annual Report will also be available on the website of the company i.e., www.tritoncorp.in and the website of BSE India Limited i.e., www.bseindia.com

The Cut-off date has been fixed as Saturday, 21<sup>st</sup> September, 2024 for the purpose of voting entitlement for AGM and for determining the names of eligible members for the financial year ended March 31, 2024.

The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in Compliance with the MCA Circulars and SEBI Circular.

By order of the Board  
For Triton Corp Limited  
Sd/-  
Meena Rastogi  
(Chairperson)

Place: New Delhi  
Dated: 30.08.2024

**"IMPORTANT"**  
Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

**Public Notice For E-Auction For Sale of Immovable Properties**  
Sale of Immovable property mortgaged to IFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IFL-HFL) Corporate Office at Plot No. 98, Udyog Vihar, Phase-V, Gurgaon-122015 (Haryana) and Branch Office at "30/30E, Upper Ground Floor, Shivaji Marg, New Delhi - 110015" under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter "Act"). Whereas the Authorized Officer ("AO") of IFL-HFL has taken the possession of the following properties pursuant to the notice issued U/S 13(2) of the Act in the following loan accounts/proceeds, with a right to sell the same on "AS IS WHERE IS, AS IS WHAT IS BASIS AND WITHOUT RECOURSE BASIS" for realization of IFL-HFL's dues. The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the website: www.iflhome.com

Borrower(s) / Co-Borrower(s) / Guarantor(s)	Demand Notice Date and Amount	Description of the Immovable property / Secured Asset	Date of Physical Possession	Reserve Price
1. Mrs. Geeta 2. Mr. Rajendra Prasad, 3. Geeta Collection (Prospect No IL10207849)	09-Apr-2024 Rs. 20,06,040/- (Rupees Twenty Lakh Six Thousand and Forty Only)	All that part and parcel of the property 3rd Floor With All Its Roof Rights, Portion Of Built Up Property Bearing No Wz-248/67, Out Of Kharsa No 55/18, Situated In The Area Of Village, Palam And Colony Known As Raj Nagar -II Palam Colony, New Delhi, 110077. Area Measuring (In Sq. Ft.): Property Type: Built Up Area + Carpet Area Property Area: 450.00, 360.00	20-Aug-2024 Total Outstanding as on Date 07-Aug-2024 Rs. 20,97,378.7/- (Rupees Twenty Lakh Ninety Seven Thousand Three Hundred Seventy Eight Only)	Rs. 16,20,000/- (Rupees Sixteen Lakh Twenty Thousand Only)
1. Mr. Akshay Manchanda 2. Miss. Shashi Bala (Prospect No IL10405019)	07-Feb-2024 Rs. 18,96,470/- (Rupees Eighteen Lakh Ninety Six Thousand Four Hundred and Seventy Only)	All that part & parcel of the property bearing Semi-Furnished First Floor Portion Bearing Pvt No. B-3, (Middle RHS) Without Roof/Terrace Rights, Being Part of Built Up Property With Land Bearing Pvt Plot Bearing Pvt. Nos. 1, 2, 3 & 4, Comprising In Kharsa No. 518m & 522m, Situated In The Extended Lal Dora Abad of Village Burari Delhi 110084. Area Measuring (In Sq. Ft.) Property Type: Sakasbi Area, Carpet Area Property Area: 540.00, 430.00	21-Aug-2024 Total Outstanding as on Date 07-Aug-2024 Rs. 21,41,357.1/- (Rupees Twenty One Lakh Forty One Thousand Three Hundred Fifty Seven Only)	Rs. 18,40,000/- (Rupees Eighteen Lakh Forty Thousand Only) Earnest Money Deposit (EMD) Rs. 1,84,000/- (Rupees One Lakh Eighty Four Thousand Only)
1. Mr. Ashish Kumar Singh 2. Mr. Ranjay Prasad Singh 3. Mrs. Rita Devi 4. Protege Services (Prospect No.IL10202182)	09-Apr-2024 Rs. 25,09,590/- (Rupees Twenty Five Lakh Nine Thousand Five Hundred and Ninety Only)	All that part and parcel of the property bearing Built Up Third Floor Front Side With Roof Terrace Rights Of Property Bearing No E-168, Out Of Kharsa No 15/112, Situated In The Revenue Estate Of Village Matla, Area Abadi Known As Mansa Ram Park, Uttam Nagar, New Delhi, 110059. Area Measuring (In Sq. Ft.): Property Type: Built Up Area, Carpet Area Property Area: 450.00, 352.00	20-Aug-2024 Total Outstanding as on Date 07-Aug-2024 Rs. 25,57,744.1/- (Rupees Twenty Five Lakh Fifty seven Thousand Seven Hundred Forty Four Only)	Rs. 17,13,000/- (Rupees Seventeen Lakh Thirteen Thousand Only) Earnest Money Deposit (EMD) Rs. 1,71,300/- (Rupees One Lakh Seventy One Thousand Three Hundred Only)

Date of Inspection of property  
01-Oct-2024 1100 hrs -1400 hrs

EMD Last Date  
04-Oct-2024 12 till 5 pm.

Date/Time of E-Auction  
07-Oct-2024 1100 hrs -1300 hrs.

Mode of Payment: -EMD payments are to be made vide online mode only. To make payments you have to visit https://www.iflhome.com and pay through link available for the property Secured Asset only. Note: Payment link for each property Secured Asset is different. Ensure you are using link of the property Secured Asset you intend to buy vide public auction. For Balance Payment - Login https://www.iflhome.com > My Bid > Pay Balance Amount.

**TERMS AND CONDITIONS:-**

- For participating in e-auction, intending bidders required to register their details with the Service Provider https://www.iflhome.com well in advance and has to create the login account, login ID and password. Intending bidders have to submit / send their "Tender Form" along with the payment details towards EMD, copy of the KYC and PAN card at the above mentioned Branch Office.
- The bidders shall improve their offer in the multiple of amount mentioned under the column "Bid Increase Amount". In case bid is placed in the last 5 minutes of the closing time of the auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes.
- The successful bidder should deposit 25% of the bid amount (after adjusting EMD) within 24 hours of the acceptance of bid price by the AO and balance 75% of the bid amount within 15 days from the date of confirmation of sale by the secured creditor. All deposit and payment shall be in the prescribed mode of payment.
- The purchaser has to bear the cess, applicable stamp duty, fees, and any other statutory dues or other dues like municipal tax, electricity charges, land and all other incidental costs, charges including all taxes and rates outgoing relating to the property.
- The purchaser has to pay TDS application to the transaction/payment of sale amount and submit the TDS certificate with IFL-HFL.
- Bidders are advised to go through the website https://www.iflhome.com and https://www.iflhome.com/home-loans/prospective-for-auction for detailed terms and conditions of auction sale & auction application form before submitting their Bids for taking part in the e-auction proceedings.
- For details, help procedure and online training on e-auction prospective bidders may contact service provider E mail ID:- care@iflhome.com, Support Helpline Numbers: +91 800 262 499.
- For any query related to Property details, Inspection of Property and Online bid etc. call IFL HFL toll free no. 1800 262 499 from 09:30 hrs to 18:00 hrs between Monday to Friday or write to email:- care@iflhome.com
- Notice is hereby given to above said bidders to collect the household articles which were lying in the secured asset at the time of taking physical possession within 7 days, otherwise IFL-HFL shall not be responsible for any loss of property under the circumstances.
- Further the notice is hereby given to the Borrowers, that in case they fail to collect the above said articles same shall be sold in accordance with Law.
- In case of default in payment by any stage by the successful bidder / auction purchaser within the above stipulated time, the sale will be cancelled and the amount already paid will be forfeited (including EMD) and the property will be again put to sale.
- AO reserves the right to postpone/alter or vary the terms and condition of tender/auction without assigning any reason therefor. In case of any dispute in tender/auction, the decision of AO of IFL-HFL will be final.

**STATUTORY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 6 (E) OF THE SARFAESI ACT, 2002**  
The Borrower are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with updated interest and ancillary expenses before the date of Tender/Auction, failing which the property will be auctioned/sold and balance dues if any will be recovered with interest and cost.

Place: Delhi Date: 31-Aug-2024  
Sd/- Authorised Officer, IFL Home Finance Limited

**AKG EXIM LIMITED**  
CIN: L00632HR2005PLC119497  
Reg. Office: Unit No. 237, 02nd Floor, Tower-B, Spazedge, Sector-47, Sohna Road, Gurugram-122018, Haryana  
Website: www.akeg-exim.com; Email: info@akeg-global.com; Ph: +91-124-4267873

**INFORMATION REGARDING 19<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE (VC) /OTHER AUDIO-VISUAL MEANS (OAVM), CUTOFF DATE.**

The Members of AKEG EXIM Limited ("the Company") are hereby informed that 19<sup>th</sup> (NINETEENTH) Annual General Meeting ("AGM") will be held on Wednesday, 25<sup>th</sup> September, 2024 through Video Conference ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") at 05.00 pm IST, without the physical presence of the Members at the common venue. In compliance with the applicable provision of the Companies Act, 2013 ("the Act"), and the rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation 2015, read with latest Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021 and 02/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 08, 2021, December 14, 2021 and May 05, 2022 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, SEBI/HO/DDHS/DDHS-RACPOD1/P/CIR/2023/001 and SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2023/167 dated January 15, 2021, January 5, 2023 and October 7, 2023, respectively issued by the Securities and Exchange Board of India (collectively referred to as "SEBI Circulars"), and other applicable circular issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and SEBI, to transact the businesses that will be sent forth in the notice of the said AGM.

- In compliance with the above circular, electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial year 2023-24 will be sent to all the Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Registrar and Share Transfer Agent (RTA) or with respective Depository Participants.

**केआईएफ हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**  
 पंजीकृत कार्यालय: 6वीं मंजिल, केआईएफएस कॉन्सॉर्ट हाउसिंग होटल, एनटीई लैंग्वेज के पास, अशोक गाँविका बीआरटीएस के पास, इस्कॉन – अंबली रोड, अंबली, अग्रवाला, गुजरात – 380054 कोषांक: 02-21789400 ई-मेल: contact@kifhousing.com वेबसाइट: www.kifhousing.com  
 सौकर्याईयन: U-65922G12015PLFC085079 अकाईड की कोर: DOR-00145

**वित्तीय संसंधियों के प्रतिबंधित अधिकार और पुनर्निर्माण सहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संशोधित अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत सूचना**

क्र. सं.	नाम/अमेरिच/एवावर	उपायकर्ता/साथ-उपायकर्ता/गारंटर का नाम और एनपीए की तिथि	मांग सूचना की तिथि/व्यक्ति का तिथि	सुरक्षित संसंधियों का विवरण
1	गाजियाबाद / 16063 / LNHLGH A 012693	1. श्री ब्रज पाठ (उपायकर्ता) 2. श्रीमती अनिता देवी (साथ-उपायकर्ता) 3. श्री मनोज कुमार (साथ-उपायकर्ता) एनपीए 10 अक्टू, 2024	मांग सूचना की तिथि 27 अगस्त 2024 ओ/एन एनपीए 1992973/-	संपत्ति का पता: चौथी मंजिल (उप के विना), प्लॉट नंबर 33 व खस्ता नंबर 167, रक्षा कृष्ण एक्सप्रेस घनत्वयन फार्म हाउसिंग गांव, इंदगजी इलाका गाजियाबाद गाजियाबाद एनपीए प्रसंग मार्ग 201015। किसी वित्तीय कर्तव्य – पूर्ण अन्य प्लॉट, परिमाण: 20 कीट बीडी सकल, उत्तर प्लॉट नंबर 30। पतिका: 20 कीट बीडी सकल। शाहर के अंतर्गत – पूर्ण अन्य प्लॉट, परिमाण: 20 कीट बीडी सकल, उत्तर प्लॉट नंबर 30। पतिका: 20 कीट बीडी सकल, उत्तर प्लॉट नंबर 30 कीट बीडी सकल, उत्तर प्लॉट नंबर 30 कीट बीडी सकल।

उपरोक्त उपायकर्ता/गारंटर को संलग्न दी जाती है कि (1) अधिक और पूर्ण विवरण के लिए अधोहस्ताक्षरी से मूल नोटिस प्राप्त करें और (2) ऊपर उल्लिखित नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर शेष बकाया राशि ब्याज और लागत आदि संरक्षित अधिनियम के तहत आज की कार्यवाही से बचने के लिए का भुगतान करें।  
 दिनांक: 30/08/2024  
 स्थान: उत्तर प्रदेश

दस्तावेज / प्राप्तिपत्र अधिकारी,  
 केआईएफएस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड।

**ट्राइटन कॉर्पोरेशन लिमिटेड**  
 CIN: L74899DL1993PLC039989  
 ईमेल: cs@tritoncorp.in / फोन: 011-49095652  
**पंजीकृत कार्यालय:** आर-4, यूनिट 102, प्रथम तल, झिंडी की एक्सटेंशन मेन रोड, मालवती नगर, नई दिल्ली - 110017  
**34<sup>वाँ</sup> वार्षिक आम बैठक के संबंध में सदस्यों को सूचना**

प्रिय सदस्य(गण),  
 एतद द्वारा हम आपको सूचित करते हैं कंपनी अधिनियम, 2013 (‘अधिनियम’), उसके तहत बनाए गए नियमों और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (‘प्रशासीक’) द्वारा जारी सामान्य परिचय संख्या 20/2020 दिनांक 5 अक्टू, 2020 के साथ पठित सामान्य परिचय संख्या 09/2023 दिनांक 29 अक्टू, 2023 और भारतीय प्रतिभूति और वित्तियन बोर्ड (‘सेबी’) द्वारा जारी परिचय संख्या SEBI/HO/CFD/POD2/CI/R/F/2023/120 दिनांक 11 नवंबर, 2023 के साथ पठित SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CI/R/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 के अनुपालन में ट्राइटन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (‘कंपनी’) की 34<sup>वाँ</sup> वार्षिक आम बैठक (‘एजीएम’) **शनिवार, 28 अक्टूबर, 2024 को दोपहर 01.00 बजे** (IST) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (सीडी) अथवा एडव-ऑफ माध्यमों (‘ओडीएम’) के माध्यम से, एजीएम की सूचना में विभाजित अनुसूचित कार्यवाही करने के लिए आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त परिचय के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ 34<sup>वाँ</sup> वार्षिक आम बैठक बुलाने की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनी के सदस्यों और अन्य पात्र व्यक्तियों को उनकी पंजीकृत ईमेल आईडी (कंपनी/डिजिटल) के साथ पंजीकृत और भौतिक/ऑडिओविडियो माध्यमों के माध्यम से 34<sup>वाँ</sup> एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। ई-वोटिंग की सुविधा के लिए कंपनी द्वारा वेबसाइट ट्राइटन डिजिटल लिमिटेड (‘डिजिटल लिमिटेड’) के साथ आवश्यक व्यवस्था की गई है। 34<sup>वाँ</sup> एजीएम में शामिल होने और 34<sup>वाँ</sup> एजीएम के दौरान टिकट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने के अंतर्गत से वोट में निर्धारित की सूचना में दिए गए हैं। वीडियो/ऑडिओविडियो माध्यमों के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिनता जाएगा। 34<sup>वाँ</sup> एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट [www.tritoncorp.in](http://www.tritoncorp.in) और ट्राइटन डिजिटल लिमिटेड [www.tritoncorp.in](http://www.tritoncorp.in) पर भी उपलब्ध हैं।

एजीएम के लिए मतदान पत्रिका के उद्देश्य से 31 अगस्त, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए पात्र सदस्यों के नाम विभाजित करने के लिए कट-ऑफ तिथि **शनिवार, 21 अक्टूबर, 2024 विभाजित की गई है।**

पटोक सूचना कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और हित के लिए जारी की जा रही है तथा यह एजीएम परिचय/त्रो और सेबी परिचय के अनुपालन में है।

बोर्ड के आदेश से  
**कृते ट्राइटन कॉर्पोरेशन लिमिटेड**  
 इत्यादि/-  
 जीता टडानी (अध्यक्ष)

**अग्रवाल इन्फ्लेक्स बॉर्ड लिमिटेड**  
 (CIN: I999909DL984PLC019052)  
 पंजीकृत कार्यालय: 217, अग्रवाल प्रेटेंशन नॉक, प्लॉट नंबर 2, आनंदविप कैंड, रोड नंबर 44 के पास, पौनमपुर, नई दिल्ली – 110034  
 वेबसाइट: [www.agwalduplex.net](http://www.agwalduplex.net); दूरभाष: +91 11 47527700, फैक्स: +91 11 47527777

**वार्षिक आम बैठक की सूचना, एक क्लोज़ेड एवं ई-वोटिंग की जानकारी**

एतद द्वारा नोटिस दिया जाता है कि कंपनी के शेयरधारकों की 40<sup>वाँ</sup> वार्षिक आम बैठक (‘आजीएम’) अथवा ऑडिओ वीडियो माध्यमों (‘वीडियो/ऑडिओ’) के माध्यम से **शनिवार, 30 अक्टूबर, 2024 को सुबह 11.30 बजे** आयोजित की जाएगी। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिचय संख्या 14/2020 दिनांक 8 अक्टू, 2020, परिचय संख्या 17/2020 दिनांक 13 अक्टू, 2020 और परिचय संख्या 20/2020 दिनांक 05 अक्टू, 2020 और परिचय संख्या 09/2023 दिनांक 26 अक्टू, 2023 और SEBI/HO/CFD/CMD/CI/R/2023/167 दिनांक 07 अक्टू, 2023 और परिचय संख्या SEBI/HO/CFD/CMD/CI/R/2022/162 दिनांक 13 अक्टू, 2022, परिचय संख्या SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CI/R/2023/167 दिनांक 7 अक्टू, 2023, परिचय संख्या SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CI/R/2023/167 दिनांक 7 अक्टू, 2023 के अनुपालन में कंपनी को एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की मौखिक उपस्थिति के माध्यम से भाग ले सकते हैं, लेकिन कोरम के लिए आवश्यक नमूने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एजीएम के दौरान मतदान की सुविधा में उपलब्ध कटऑफ तिथि और एजीएम में वीडियो माध्यमों के माध्यम से उपस्थिति को एक विकल्प के रूप में शामिल करने के लिए आवश्यक है।  
 ई-वोटिंग की सुविधा के माध्यम से 34<sup>वाँ</sup> एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। ई-वोटिंग की सुविधा के लिए कंपनी द्वारा वेबसाइट ट्राइटन डिजिटल लिमिटेड (‘डिजिटल लिमिटेड’) के साथ आवश्यक व्यवस्था की गई है। 34<sup>वाँ</sup> एजीएम में शामिल होने और 34<sup>वाँ</sup> एजीएम के दौरान टिकट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने के अंतर्गत से वोट में निर्धारित की सूचना में दिए गए हैं। वीडियो/ऑडिओविडियो माध्यमों के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिनता जाएगा। 34<sup>वाँ</sup> एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट [www.agwalduplex.net](http://www.agwalduplex.net) पर भी उपलब्ध हैं। ईमेल के माध्यम से एजीएम की सूचना का प्रेषण 30 अगस्त 2024 को पूरा हो गया है।

कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा वेबसाइट ट्राइटन डिजिटल लिमिटेड (‘डिजिटल लिमिटेड’) द्वारा प्रदान की जा रही है। ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए आवश्यक है।  
 ई-वोटिंग की सुविधा के माध्यम से 34<sup>वाँ</sup> एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। ई-वोटिंग की सुविधा के लिए कंपनी द्वारा वेबसाइट ट्राइटन डिजिटल लिमिटेड (‘डिजिटल लिमिटेड’) के साथ आवश्यक व्यवस्था की गई है। 34<sup>वाँ</sup> एजीएम में शामिल होने और 34<sup>वाँ</sup> एजीएम के दौरान टिकट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने के अंतर्गत से वोट में निर्धारित की सूचना में दिए गए हैं। वीडियो/ऑडिओविडियो माध्यमों के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिनता जाएगा। 34<sup>वाँ</sup> एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट [www.agwalduplex.net](http://www.agwalduplex.net) पर भी उपलब्ध हैं। ईमेल के माध्यम से एजीएम की सूचना का प्रेषण 30 अगस्त 2024 को पूरा हो गया है।

कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा वेबसाइट ट्राइटन डिजिटल लिमिटेड (‘डिजिटल लिमिटेड’) द्वारा प्रदान की जा रही है। ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए आवश्यक है।  
 ई-वोटिंग की सुविधा के माध्यम से 34<sup>वाँ</sup> एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। ई-वोटिंग की सुविधा के लिए कंपनी द्वारा वेबसाइट ट्राइटन डिजिटल लिमिटेड (‘डिजिटल लिमिटेड’) के साथ आवश्यक व्यवस्था की गई है। 34<sup>वाँ</sup> एजीएम में शामिल होने और 34<sup>वाँ</sup> एजीएम के दौरान टिकट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने के अंतर्गत से वोट में निर्धारित की सूचना में दिए गए हैं। वीडियो/ऑडिओविडियो माध्यमों के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिनता जाएगा। 34<sup>वाँ</sup> एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट [www.agwalduplex.net](http://www.agwalduplex.net) पर भी उपलब्ध हैं। ईमेल के माध्यम से एजीएम की सूचना का प्रेषण 30 अगस्त 2024 को पूरा हो गया है।

बोर्ड के आदेश से  
**कृते अग्रवाल इन्फ्लेक्स बॉर्ड लिमिटेड**  
 इत्यादि/-  
 (रंगू) अधिकारी  
 कंपनी अधिकारी

**धामपुरे स्टाइलिटी शुगर्स लिमिटेड**  
 सौकर्याईयन: U241121PL1992PLC014478  
 पंजीकृत कार्यालय: आम परदावन, हाउसिंग-धामपुरे, विकसित, उत्तर प्रदेश-246761  
**कार्यालय कार्यालय:** 24, कृष्ण लेन, नंवर डी ट्रेडर के पास, नई दिल्ली-110001  
 ई-मेल: cs@dhampurgreen.com

**32<sup>वीं</sup> वार्षिक आम बैठक की सूचना, ई-वोटिंग सूचना और वरु क्लोजर**

धामपुरे स्टाइलिटी शुगर्स लिमिटेड की वार्षिक आम बैठक शनिवार, 23 अगस्त, 2024 को प्रथम 01:30 बजे (आईएसटी) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, **ग्राम परदावन, हाउसिंग-धामपुरे, विकसित, उत्तर प्रदेश-246761** में आयोजित की जाएगी। 31 अगस्त, 2024 को सामान्य वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट इन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी गई है। डिजिटल/कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आयोजित, सभी (सूचीबद्धता शामिल और प्राकृतिक/आवश्यकता) अधिनियम, 2015 (‘सूचीबद्धता अधिनियम’) के अनुपालन में, वार्षिक ई-वोटिंग पर पंजीकृत किए हैं, जिन्हें पंजीकृत परिचय और सेबी परिचय के साथ पढ़ा जाता है। निम्नलिखित आवश्यकताओं के अनुपालन एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण 27/08/2024 को पूरा हो गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के तहत कोरम (प्रकृत/एन प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 तथा सेबी लिस्टिंग नियमों के अधिनियम 44 के अनुपालन, कंपनी अपने सदस्यों को वोट देने के लिए जाने वाले कार्यालय के नाम में प्रस्तावित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवंटित रिपोर्ट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने के लिए सूचना प्रदान करने में प्रसन्न है।

सिस्टम के लिए कंपनी ने एक सुरक्षाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत एजीएम के रूप में मेनल सिसिप्टोरीज डिजिटल लिमिटेड (‘एक्सप्लोरिज’) को सौंपा है। उक्त अधिनियम एवं नियमों के अनुसार ई-वोटिंग से संबंधित विषयों के संबंध में अधिकृत अधिकारी के पास है।

- रिपोर्ट ई-वोटिंग की सूचना की तिथि और समय: 20 अक्टूबर, 2024 सुबह 09:00 बजे।
- रिपोर्ट ई-वोटिंग की समाप्ति की तिथि और समय: 22 अक्टूबर, 2024 सुबह 05:00 बजे। ऊपर बताई गई अंतिम तिथि और समय के बाद रिपोर्ट ई-वोटिंग की सुविधा अंत में नहीं दी जाएगी। इसके बाद वोट देने के लिए एक्सप्लोरिज द्वारा विभाजित ई-वोटिंग सिस्टम को बंद कर दिया जाएगा।
- रिकॉर्ड में मॉड्युल/कट-ऑफ तिथि: 16 अक्टूबर, 2024 है।
- बुक क्लोजर: 17 अक्टूबर, 2024 से 23 अक्टूबर, 2024 तक वें सदस्य लिमिटेड नाम कट-ऑफ तिथि को संलग्न कर संलग्न या डिजिटल लिमिटेड द्वारा बनाए गए सौकर्याईयन को वोट डालने के लिए किया जा सकता है।
- रिकॉर्ड ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने वाले सदस्य एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।
- जो सदस्य एजीएम में उपस्थित नहीं और डिजिटल रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डालते, वें एजीएम से वोट देने के पात्र नहीं हैं।
- कंपनी की वेबसाइट का पता जहां एजीएम की सूचना प्रदान की जाती है: कंपनी: [www.dhampurgreen.com](http://www.dhampurgreen.com), सेबी संबंधित वेबसाइट एक्सप्लोरिज वेबसाइट रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और एक्सप्लोरिज वेबसाइट [www.asiad.com](http://www.asiad.com) से भी प्राप्त किया जा सकता है।
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी जानकारी को अधिक विश्वास (एक्सप्लोरिज) वेबसाइट सिसिप्टोरीज डिजिटल लिमिटेड, ई-वोटिंग, ए-वित्तीय, सीबीआई मंडल, कम्पलाइंस डिवीजन, सैलायुड मॉडर मार्ग, लेबर पैल्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड 480013 के को संचालित की जा सकती है या [cs@dhampurgreen.com](http://cs@dhampurgreen.com) पर ईमेल भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 18001920990 पर कॉल कर सकते हैं।
- आवृत्ति वित्त वर्ष, प्रकृतिक/आवश्यकता, (सदस्यता सूचना एड्रेस) 41116 और वित्तीय वर्ष 18283) को सदस्य ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने और निष्पक्ष और आवश्यक तथ्यों से एजीएम में मतदान करने के लिए सक्षम/अधिकार को मत में नियुक्त किया गया है।
- मतदान के वार्षिक परिणाम, सूचीबद्ध की रिपोर्ट के साथ, कंपनी की वेबसाइट [www.dhampurgreen.com](http://www.dhampurgreen.com) पर रहे जाएंगे तथा वार्षिक आम बैठक के समापन के 2 कार्य दिवसों के भीतर स्टॉक एक्सचेंज में प्रस्तुत किए जाएंगे, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

**धामपुरे स्टाइलिटी शुगर्स लिमिटेड के लिए**  
 दस्तावेज / प्राप्तिपत्र अधिकारी  
 थाना: 30/08/2024  
 स्थान: नई दिल्ली

**पूजा स्पेशल रेलगाड़ियों के फेरे में वृद्धि**

आगामी त्यौहारों के दौरान रेलयात्रियों के सुविधाजनक आगमन के लिए रेलवे द्वारा पूर्व घोषित विशेष रेलगाड़ियों की सेवाओं को बढ़ाने/जारी रखने का निर्णय लिया गया है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

**02391/02392 पटना जं. - आनन्द विहार टर्मिनल - 12 फेरे**

पटना जं. सुपरफास्ट एक्सप्रेस विशेष रेलगाड़ी (साप्ताहिक)	फेरे
गाड़ी सं. 02391 आगमन प्रस्थान	स्टेशन पटना जं.
---- 22:20	गाड़ी सं. 02392 आगमन प्रस्थान
15:00 ----	---- 17:20 ----
----	---- आनन्द विहार टर्मिनल ---- 23:20

चलने के दिन: 02391 पटना जं. से प्रत्येक शनिवार को दिनांक 05.10.2024 से 09.11.2024 तक तथा 02392 आनन्द विहार टर्मिनल से प्रत्येक सोमवार को दिनांक 06.10.2024 से 10.11.2024 तक।  
 उदाहरण: दानापुर, आरा, बक्सर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जं., प्रयागराज जं. और कानपुर सेंट्रल स्टेशन।  
 स्थान: 2 टिपर वाता, 3 टिपर वाता, शयनयान एवं सामान्य श्रेणी।

**03255/03256 पटना जं. - आनन्द विहार टर्मिनल - 26 फेरे**

पटना जं. सुपरफास्ट एक्सप्रेस विशेष रेलगाड़ी (द्वि-साप्ताहिक)	फेरे
गाड़ी सं. 03255 आगमन प्रस्थान	स्टेशन पटना जं.
---- 22:20	गाड़ी सं. 03256 आगमन प्रस्थान
15:00 ----	---- 17:20 ----
----	---- आनन्द विहार टर्मिनल ---- 23:20

चलने के दिन: 03255 पटना जं. से प्रत्येक शनिवार व गुरुवार को दिनांक 03.10.2024 से 14.11.2024 तक तथा 03256 आनन्द विहार टर्मिनल से प्रत्येक सोमवार व शुक्रवार को दिनांक 04.10.2024 से 15.11.2024 तक।  
 उदाहरण: दानापुर, आरा, बक्सर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जं., प्रयागराज जं. और कानपुर सेंट्रल स्टेशन।  
 स्थान: 2 टिपर वाता, 3 टिपर वाता, 3 टिपर वाता, इकॉनॉमि, शयनयान एवं सामान्य श्रेणी।

**03257/03258 दानापुर - आनन्द विहार टर्मिनल - 12 फेरे**

दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस विशेष रेलगाड़ी (साप्ताहिक)	फेरे
गाड़ी सं. 03257 आगमन प्रस्थान	स्टेशन दानापुर
---- 07:30	गाड़ी सं. 03258 आगमन प्रस्थान
00:30 ----	---- 20:45 ----
----	---- आनन्द विहार टर्मिनल ---- 05:00

चलने के दिन: 03257 दानापुर से प्रत्येक शनिवार को दिनांक 06.10.2024 से 10.11.2024 तक तथा 03258 आनन्द विहार टर्मिनल से प्रत्येक सोमवार को दिनांक 07.10.2024 से 11.11.2024 तक।  
 उदाहरण: आरा, बक्सर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जं., प्रयागराज जं. और कानपुर सेंट्रल स्टेशन।  
 स्थान: 2 टिपर वाता, 3 टिपर वाता, शयनयान एवं सामान्य श्रेणी।

**रिक्त विवरण के लिए कृपया रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139 डायल करें अथवा रेलगाड़ी पूछताछ वेबसाइट [www.enquiry.indianrail.gov.in](http://www.enquiry.indianrail.gov.in) देखें।**

**रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139**  
 रेलमदद वेबसाइट देखें: [www.railmadad.in](http://www.railmadad.in)  
[www.enquiry.indianrailways.gov.in](http://www.enquiry.indianrailways.gov.in)  
 रेलमदद ऐप डाउनलोड करें

**उत्तर रेलवे**  
 सदैव आपकी सेवा में  
 डा. www.nr.indianrailways.gov.in पर प्रिन्ट

**माहकों की सेवा में मुस्कान के साथ**

**नीलम पेपर मार्केटिंग लिमिटेड**  
 (CIN: U74899DL1995PLC006194)  
 द. कार्यालय: 218 – 222 अग्रवाल प्रेटेंशन नॉक, प्लॉट नंबर 44 के पास, पौनमपुर, नई दिल्ली – 110034  
 ईमेल: cs@neerjopaper.com, वेबसाइट: [www.neerjopaper.com](http://www.neerjopaper.com); दूरभाष: +91 11 47527700, फैक्स: +91 11 47527777

**वार्षिक आम बैठक की सूचना, एक क्लोज़ेड एवं ई-वोटिंग की जानकारी**

एतद द्वारा नोटिस दिया जाता है कि कंपनी के शेयरधारकों की 29<sup>वाँ</sup> वार्षिक आम बैठक (‘आजीएम’) अथवा ऑडिओ वीडियो माध्यमों (‘वीडियो/ऑडिओ’) के माध्यम से **शुक्रवार, 27 अक्टूबर 2024 को सुबह 11.30 बजे** आयोजित की जाएगी। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिचय संख्या 14/2020 दिनांक 8 अक्टू, 2020, परिचय संख्या 17/2020 दिनांक 13 अक्टू, 2020 और परिचय संख्या 20/2020 दिनांक 05 अक्टू, 2020 और परिचय संख्या 09/2023 दिनांक 26 अक्टू, 2023 और SEBI/HO/CFD/CMD/CI/R/2023/167 दिनांक 07 अक्टू, 2023 और परिचय संख्या SEBI/HO/CFD/CMD/CI/R/2022/162 दिनांक 13 अक्टू, 2022, परिचय संख्या SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CI/R/2023/167 दिनांक 7 अक्टू, 2023, परिचय संख्या SEBI/HO/CFD/POD-2/P/CI/R/2023/167 दिनांक 7 अक्टू, 2023 के अनुपालन में कंपनी को एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की मौखिक उपस्थिति के विना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग ले सकते हैं और अनिवार्य हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से वोट डालने के लिए आवश्यक है।  
 ई-वोटिंग की सुविधा के माध्यम से 34<sup>वाँ</sup> एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। ई-वोटिंग की सुविधा के लिए कंपनी द्वारा वेबसाइट ट्राइटन डिजिटल लिमिटेड (‘डिजिटल लिमिटेड’) के साथ आवश्यक व्यवस्था की गई है। 34<sup>वाँ</sup> एजीएम में शामिल होने और 34<sup>वाँ</sup> एजीएम के दौरान टिकट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने के अंतर्गत से वोट में निर्धारित की सूचना में दिए गए हैं। वीडियो/ऑडिओविडियो माध्यमों के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिनता जाएगा। 34<sup>वाँ</sup> एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट [www.neerjopaper.com](http://www.neerjopaper.com) पर भी उपलब्ध हैं। ईमेल के माध्यम से एजीएम की सूचना का प्रेषण 30 अगस्त 2024 को पूरा हो गया है।

कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा वेबसाइट ट्राइटन डिजिटल लिमिटेड (‘डिजिटल लिमिटेड’) द्वारा प्रदान की जा रही है। ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए आवश्यक है।  
 ई-वोटिंग की सुविधा के माध्यम से 34<sup>वाँ</sup> एजीएम में शामिल हो सकते हैं और भाग ले सकते हैं। ई-वोटिंग की सुविधा के लिए कंपनी द्वारा वेबसाइट ट्राइटन डिजिटल लिमिटेड (‘डिजिटल लिमिटेड’) के साथ आवश्यक व्यवस्था की गई है। 34<sup>वाँ</sup> एजीएम में शामिल होने और 34<sup>वाँ</sup> एजीएम के दौरान टिकट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट डालने के अंतर्गत से वोट में निर्धारित की सूचना में दिए गए हैं। वीडियो/ऑडिओविडियो माध्यमों के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिनता जाएगा। 34<sup>वाँ</sup> एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट [www.neerjopaper.com](http://www.neerjopaper.com) पर भी उपलब्ध हैं। ईमेल के माध्यम से एजीएम की सूचना का प्रेषण 30 अगस्त 2024 को पूरा हो गया है।

**बोर्ड के आदेश से**  
**कृते नीलम पेपर मार्केटिंग लिमिटेड**  
 इत्यादि/-  
 दीपा कुमारी (कंपनी अधिकारी/अधिकारी)

**एकेजी एग्जिम लिमिटेड**  
 सौकर्याईयन: U900003CG03M2005PLC009119497  
 पंजीकृत कार्यालय: इन्डियन स्ट्रीट, 227, U2एन ताल, प्लॉट नं. 3, लेबर पैल्स, सीक्रेटरी, सेक्टर-47, एनडीए, नए दिल्ली-110028  
 वेबसाइट: [www.akg-global.com](http://www.akg-global.com), ई-मेल: [info@akg-global.com](mailto:info@akg-global.com)  
 दूरभाष: +91-124-4267873

**वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य दूर-अव्य साधनों (ओडीएम) के माध्यम से आयोजित की जाने वाली 19<sup>वीं</sup> वार्षिक आम बैठक तथा कट-ऑफ तिथि के संबंध में जानकारी**

(एजीएम) के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि 19<sup>वीं</sup> (संवर्धित) वार्षिक आम बैठक (‘एजीएम’) बुधवार, 25 अक्टूबर, 2024 को सांकायक 05:00 बजे ऑनलाइन मोड (‘सीडी’) / अन्य दूर-अव्य साधनों (‘ओडीएम’) के माध्यम से, सामान्य स्थान पर सदस्यों की मौखिक उपस्थिति के विना आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 (‘अधिनियम’) के तहत प्रशासन, और वार्षिक रिपोर्ट प्रेषित करने के विना आयोजित की जाएगी।

- रिपोर्ट ई-वोटिंग की सूचना की तिथि और समय: 20 अक्टूबर, 2024 सुबह 09:00 बजे।
- रिपोर्ट ई-वोटिंग की समाप्ति की तिथि और समय: 22 अक्टूबर, 2024 सुबह 05:00 बजे। ऊपर बताई गई अंतिम तिथि और समय के बाद रिपोर्ट ई-वोटिंग की सुविधा अंत में नहीं दी जाएगी। इसके बाद वोट देने के लिए एक्सप्लोरिज द्वारा विभाजित ई-वोटिंग सिस्टम को बंद कर दिया जाएगा।
- रिकॉर्ड में मॉड्युल/कट-ऑफ तिथि: 16 अक्टूबर, 2024 है।
- बुक क्लोजर: 17 अक्टूबर, 2024 से 23 अक्टूबर, 2024 तक वें सदस्य लिमिटेड नाम कट-ऑफ तिथि को संलग्न कर संलग्न या डिजिटल लिमिटेड द्वारा बनाए गए सौकर्याईयन को वोट डालने के लिए किया जा सकता है।
- रिकॉर्ड ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने वाले सदस्य एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।
- जो सदस्य एजीएम में उपस्थित नहीं और डिजिटल रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डालते, वें एजीएम से वोट देने के पात्र नहीं हैं।
- कंपनी की वेबसाइट का पता जहां एजीएम की सूचना प्रदान की जाती है: कंपनी: [www.ekgglobal.com](http://www.ekgglobal.com), सेबी संबंधित वेबसाइट एक्सप्लोरिज वेबसाइट रिपोर्ट ई-वोटिंग के माध्यम से [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) और एक्सप्लोरिज वेबसाइट [www.asiad.com](http://www.asiad.com) से भी प्राप्त किया जा सकता है।
- इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी जानकारी को अधिक विश्वास (एक्सप्लोरिज) वेबसाइट सिसिप्टोरीज डिजिटल लिमिटेड, ई-वोटिंग, ए-वित्तीय, सीबीआई मंडल, कम्पलाइंस डिवीजन, सैलायुड मॉडर मार्ग, लेबर पैल्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड 480013 के को संचालित की जा सकती है या [cs@akgglobal.com](http://cs@akgglobal.com) पर ईमेल भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 18001920990 पर कॉल कर सकते हैं।
- आवृत्ति वित्त वर्ष, प्रकृतिक/आवश्यकता, (सदस्यता सूचना एड्रेस) 41116 और वित्तीय वर्ष 18283) को सदस्य ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने और निष्पक्ष और आवश्यक तथ्यों से एजीएम में मतदान करने के लिए सक्षम/अधिकार को मत में नियुक्त किया गया है।
- मतदान के वार्षिक परिणाम, सूचीबद्ध की रिपोर्ट के साथ, कंपनी की वेबसाइट [www.ekgglobal.com](http://www.ekgglobal.com) पर रहे जाएंगे तथा वार्षिक आम बैठक के समापन के 2 कार्य दिवसों के भीतर स्टॉक एक्सचेंज में प्रस्तुत किए जाएंगे, जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

**एकेजी एग्जिम लिमिटेड**  
 दस्तावेज / प्राप्तिपत्र अधिकारी  
 थाना: 22 अगस्त, 2